

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001.”



पंजीयन क्रमांक
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2012-2015.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 403]

रायपुर, मंगलवार, दिनांक 16 जुलाई 2019—आषाढ़ 25, शक 1941

नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 12 जुलाई 2019

अधिसूचना

क्रमांक एफ 1-133/2019/18.—छ.ग. नगरपालिका अधिनियम 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961) की धारा 29 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार, नगर पंचायत अंबागढ़ चौकी, जिला-राजनांदगांव के वार्डों का विस्तार नीचे दी गई अनुसूची के अनुसार एतद्वारा अवधारित करता है :—

1. अंबागढ़ चौकी, नगर पंचायत को 15 वार्डों में विभाजित करता है और अनुसूची में दर्शाये अनुसार ऐसे प्रत्येक वार्ड की सीमा निर्धारित करता है।

2. यह अधिसूचित करता है कि ऐसे प्रत्येक वार्ड से एक पार्षद निर्वाचित किया जाएगा ।

अनुसूची

वार्ड क्रमांक	वार्ड का नाम
1	महात्मा गांधी वार्ड
2	गुरु घासीदास वार्ड
3	डॉ. अम्बेडकर वार्ड
4	दन्तेश्वरी वार्ड
5	रानी दुर्गावती वार्ड
6	फिरन्तीन वार्ड
7	भगतसिंग वार्ड
8	रानी लक्ष्मीबाई वार्ड
9	रामधुरी वार्ड
10	लाल बहादुर शास्त्री वार्ड
11	लोकमान्य तिलक वार्ड
12	सरदार पटेल वार्ड
13	सुभाषचन्द्र वार्ड
14	इंदिरा गांधी वार्ड
15	डॉ.जाकिर हुसैन वार्ड

अबांगढ़ चौकी, नगर पंचायत के वार्डों की चतुर्सीमा का विवरण

वार्ड क्रमांक 01 महात्मा गांधी वार्ड

- उत्तर — गोंदानाला जलाशय से भारत पेट्रोल पंप होकर कन्या शिक्षा परिसर तक ।
 पूर्व — कन्या शिक्षा परिसर से पीएचई. ऑफिस होते हुए गोंदानाला नहर नाली तक ।
 दक्षिण — गोंदानाला नहर नाली से स्टेट हाईवे नं. 24 पार कर सगुन लाल उइके के मकान तक ।
 पश्चिम — सगुन लाल उइके के मकान से मेरेगांव होते हुए गोंदानाला जलाशय तक ।

वार्ड क्रमांक 02 गुरु घासीदास वार्ड

- उत्तर — बालक पूर्व माध्यमिक शाला के प्लाट से स्टेट हाईवे नं. 24 पार करते हुए गोंदा नाला पम्प हाउस तक ।
 पूर्व — गोंदानाला पम्प हाउस से लालदेव शर्मा के मकान होते हुए तहसील कार्यालय तक ।
 दक्षिण — तहसील कार्यालय से नहर नाली होते हुए मुख्य सड़क पार कर रमझू राम देवांगन मकान तक ।
 पश्चिम — रमझूराम देवांगन के मकान से बालक पूर्व माध्यमिक शाला के प्लाट तक ।

वार्ड क्रमांक 03 डॉ.अम्बेडकर वार्ड

- उत्तर - राहुल टंडन के घर से मुस्लिम पुराना कब्रिस्तान होते हुए शांति बाई उईके के मकान तक।
- पूर्व - शांति बाई उईके के मकान से हनुमान प्रसाद महोबिया के मकान तक।
- दक्षिण - हनुमान प्रसाद महोबिया के मकान से उप कोषालय होते हुए बालक पूर्व माध्यमिक शाला तक।
- पश्चिम - बालक पूर्व माध्यमिक शाला से पिछे गली से रामकुमार यादव के घर होते हुए दलवीर भाटिया के मकान से राहुल टंडन के मकान तक।

वार्ड क्रमांक 04 दत्तेश्वरी वार्ड

- उत्तर - बन तालाब से गार्डन मार्ग होते हुए पारस राव के घर तक।
- पूर्व - पारस राव के घर से बरकत बी एवं गणवीर के मकान होते हुए रोहित वर्मा घर तक।
- दक्षिण - रोहित वर्मा घर से नया बस स्टैंड होते हुए कृषि महाविद्यालय तक।
- पश्चिम - कृषि महाविद्यालय से होते हुए बन तालाब तक।

वार्ड क्रमांक 05 रानी दुर्गावती वार्ड

- उत्तर - वन विभाग आवास कालोनी से अनुविभागीय अधिकारी लोक निर्माण विभाग आवास कालोनी तक।
- पूर्व - अनुविभागीय अधिकारी लोक निर्माण विभाग आवास कालोनी से ई.टाकुर घर से संतोषी मंदिर होते हुए कान्हे मार्ग तक।
- दक्षिण - कान्हे मार्ग से पोल्ट्री फार्म, गोविंद शर्मा के मकान तक।
- पश्चिम - गोविंद शर्मा के मकान से शंकर मंदिर से वन विभाग आवास कालोनी तक।

वार्ड क्रमांक 06 फिरन्तीन वार्ड

- उत्तर - हाथीकन्हार पुलिया से अनिल मानिकपुरी मकान से होते हुए हेमिन बाई सारथी के मकान तक।
- पूर्व - हेमिन बाई के मकान से गुलजार के मकान होते हुए नवाब खान के मकान तक।
- दक्षिण - नवाब खान के मकान से शा.प्रा.शाला कान्हे होते हुए धानापायली नाला तक।
- पश्चिम - धानापायली नाला से हाथीकन्हार पुलिया तक।

वार्ड क्रमांक 07 भगतसिंग वार्ड

- उत्तर — धानापायली नाला से श्यामलाल चंदेले के मकान होते हुए प्रदीप सिन्हा के मकान तक।
 पूर्व — प्रदीप सिन्हा के मकान से शिवनाथ नदी तक।
 दक्षिण — शिवनाथ नदी से बिशनाथ देवांगन के मकान तक
 पश्चिम — बिशनाथ देवांगन के मकान से धानापायली नाला तक।

वार्ड क्रमांक 08 रानी लक्ष्मीबाई वार्ड

- उत्तर — कॉलेज मैदान से रहमानी के मकान होते हुए जानीदास मानिकपुरी के मकान तक।
 पूर्व — जानीदास मानिकपुरी के मकान से बल्दू यादव के मकान होते हुए शिवनाथ नदी तक।
 दक्षिण — शिवनाथ नदी से महेश निषाद के मकान तक।
 पश्चिम — महेश निषाद के मकान से बंशीलाल यादव के मकान होते हुए कॉलेज मैदान तक।

वार्ड क्रमांक 09 रामधुरी वार्ड

- उत्तर — पोस्ट ऑफिस भवन से साजिद रहमानी के दुकान से अंबेडकर चौक तक।
 पूर्व — अंबेडकर चौक से मुरारी श्रीवास्तव के मकान होते हुए लखन देवांगन के मकान तक।
 दक्षिण — लखन देवांगन के मकान से संजय मेश्राम के मकान होते हुए रेखा देवी कुंजाम के मकान तक।
 पश्चिम — रेखा देवी कुंजाम के मकान से पीडब्ल्यूडी. विश्राम गृह होते हुए पोस्ट ऑफिस भवन तक।

वार्ड क्रमांक 10 लाल बहादुर शास्त्री वार्ड

- उत्तर — राजकुमारी तुलसानी के दुकान से सृकृतदास मानिकपुरी के मकान होते हुए संतोष सेलून दुकान तक।
 पूर्व — संतोष सेलून से राजबाड़ा होते हुए कमला बाई जैन के मकान तक।
 दक्षिण — कमला बाई जैन के मकान से सुशीला रावटे के मकान होते हुए सरोज पोरेटी के मकान तक।
 पश्चिम — सरोज पोरेटी के मकान से जलाराम मिष्ठान कुम्हारपारा होते हुए राजकुमारी तुलसानी के दुकान तक।

वार्ड क्रमांक 11 लोकमान्य तिलक वार्ड

- उत्तर — ललित तालाब से रफीक खान के मकान होते हुए गणेश मंच तक।
- पूर्व — गणेश मंच से डेविड पटेल एवं फिरोबाई के मकान होते हुए एच.डी.सिंग के मकान तक।
- दक्षिण — एच.डी.सिंग के मकान से सुकवारो बाई निषाद के मकान होते हुए पटेल सामुदायिक भवन तक।
- पश्चिम — पटेल सामुदायिक भवन से ललीत तालाब तक।

वार्ड क्रमांक 12 सरदार पटेल वार्ड

- उत्तर — दयानंद ठावरे के मकान से कृपाराम देवांगन के मकान होते हुए जगदीश देवांगन के मकान तक।
- पूर्व — जगदीश देवांगन के मकान से व्यवहार न्यायालय एवं मुख्यमंत्री स्वावलंबन दुकान होते हुए शिवनाथ नदी तक।
- दक्षिण — शिवनाथ नदी से पुराना रावपाट तक।
- पश्चिम — पुराना रावपाट से रामसाय पटेल एवं संदीप लाटा के मकान होते हुए दयानंद ठावरे के मकान तक।

वार्ड क्रमांक 13 सुभाषचन्द्र वार्ड

- उत्तर — गोपालदास खंडेलवाल के मकान से बाबूलाल निषाद के मकान होते हुए खैरूननिशा के मकान तक।
- पूर्व — खैरूननिशा के मकान से सुरेन्द्र खरे के मकान एवं चंपा बाई के मकान होते हुए शराब दुकान तक।
- दक्षिण — शराब दुकान से शिव मंदिर एवं रविशंकर खंडेलवाल के दुकान होते हुए धीरज झा के मकान तक।
- पश्चिम — धीरज झा के मकान से नाथूराम बंजारे के मकान होते हुए गोपालदास खंडेलवाल के मकान तक।

वार्ड क्रमांक 14 इंदिरा गांधी वार्ड

- उत्तर — बजरंग मंदिर से भुवन अमेला के मकान एवं हेमलाल सोनी के मकान होते हुए लोचन कुंजाम के मकान तक।
- पूर्व — लोचन कुंजाम के मकान से पेट्रोल पंप होते हुए सुरेश अग्रवाल के मकान तक।
- दक्षिण — सुरेश अग्रवाल के मकान से मदरसा होते हुए गौरीशंकर खंडेलवाल के दुकान तक।
- पश्चिम — गौरीशंकर खंडेलवाल के दुकान से गांधी चौक होते हुए बजरंग मंदिर तक।

वार्ड क्रमांक 15 डॉ. जाकिर हुसैन वार्ड

- उत्तर – अब्दुल रज्जाक के मकान से मस्जिद होते हुए गैस गोदाम तक।
 पूर्व – गैस गोदाम से लोचन कुंजाम के मकान तक।
 दक्षिण – लोचन कुंजाम के मकान से श्रीराम भवन होते हुए दिलीप गुप्ता के मकान तक।
 पश्चिम – दिलीप गुप्ता के मकान से मुकेश कुमार श्रीवास्तव के मकान होते हुए अब्दुल रज्जाक के मकान तक।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
 आर. एक्का, उप सचिव.

नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 12 जुलाई 2019

क्रमांक एफ 1-133/2019/18.-भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 1-133/2019/18, दिनांक 12.07.2019 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
 आर. एक्का, उप सचिव.

Nava Raipur Atal Nagar, the 12th July 2019

NOTIFICATION

No. F 1-133/2019/18.-In exercise of the powers conferred by sub section (1) of section 29 of the chhattisgarh municipalities act 1961 (No.37 of 1961) the State Government hereby determine the extent of wards of Nagar Panchayat Ambagarh Chowki, Distt. Rajnandgaon as per shedule given Below :-

1. Divides Nagar Panchayat, Ambagarh Chowki into 15 wards and described the limits of each ward as shown in schedule.
2. Notified that one councilor shall be elected from each such ward.

SCHEDULE

S.No.of ward	Name of the ward
1	Mahatma Gandhi Ward
2	Guru Ghasidas Ward
3	Dr. Ambedkar Ward
4	Danteshwari Ward
5	Rani Durgawati Ward

6	Firantin Ward
7	Bhagat singh Ward
8	Rani Laxmibai Ward
9	Ramdhuri Ward
10	Lalbahadur Shastri Ward
11	Lokmanya Tilak Ward
12	Sardar Patel ward
13	Subhashchandra Ward
14	Indira Gandhi Ward
15	Dr. Zakir Husain Ward

Descriptions of the Boundries of ward of Nagar Panchayat Ambagarh Chowki

WARD NO. 01 MAHATMA GANDHI WARD

- North -** From Gondanala reservoir to Girl Education campus via bharat petrol Pump.
East - From the Girls Education Campus to Gondanala Canal Drain via PHE office.
South - From Gondanala Canal Drain to house of Sagun lal Uikey Via State Highway No. 24 .
West - From house of Sagun lal Uikey to Gondanala reservoir via meregaon.

WARD NO. 02 GURU GHASIDAS WARD

- North -** From Boys middle school plot to Gondanala pump house Crossing state highway No. 24.
East - From Gondanala pump house to Tehsil Office via Laldev Sharma's house.
South - From Tehsil Office to house of Ramjhu Ram Dewangan Via canal Drain crossing the main road.
West - From house of Ramjhu Ram Dewangan to the plot of boys Middle School.

WARD NO.03 Dr. AMBEDKAR WARD

- North -** From house of Rahul Tandon to house of Shanti bai uikey via Mushlim old cemetery.
East - From house of Shanti bai uikey to house of hanuman prashad Mahobiya.
South - From house of Hanuman Prasad Mohobiya to Boys Middle School via Sub Treasury.
West - From Boys Middle School, street behind the house of Ramkumar Yadav to Rahul Tandon's house via house of Dalveer Bhatia.

WARD NO.04 DANTESWARI WARD

- North -** From Ban pond to house of Paras Rao via Garden road.
East - From house of Paras Rao to house of Rohit verma via house of Barkat bi & Ganvir.
South - From house of Rohit verma to Agriculture collage via New Bus Stand.
West - From Agriculture college to ban pond.

WARD NO. 05 RANI DURGAWATI WARD

- North -** From the Forest Department housing colony to Sub Division Officer PWD housing colony.
East - From Sub divisional pwd housing colony to Kanhe road via house of E thakur and santoshi Temple.
South - From Kanhe road to house of Govind Sharma via poultry farm.
West - From house of Govind sharma to forest department housing colony via Shankar Temple.

WARD NO.06 FIRANTIN WARD

- North -** From Hathikanhar bridge to the house of hemin bai sarthi via anil manikpuri house.
East - From house of Hemin bai sarthi's to house of Nawab Khan via Guljar Khan house.
South - From house of nawab khan to dhanapayli nala via primary school Kanhe.
West - From dhanapayali nala to Hathikanhar Bridge.

WARD NO. 07 BHAGAT SINGH WARD

- North -** From Dhanapayali Nala to house of pradeep sinha via Shyamlal Chandelle house.
East - From the House of pradeep sinha to Shivnath river.
South - From Shivnath river to the house of Bishnath Dewangan .
West - From house of Bishnath Dewangan to Dhanapayli Nala.

WARD NO.08 RANI LAXMIBAI WARD

- North -** From Collage ground to house of Janidas Manikpuri via Rahmani house.
East - From Janidas Manikpuri's house to Shivnath River via house of Baldu Yadav.
South - From Shivnath River to Mahesh Nishad's house.
West - From Mahesh Nishad's house to College Ground via house of Banshi Lal Yadav.

WARD NO.09 RAMDHURI WARD

- North -** From Post Office Building to Ambedkar chowk via Sazid Rahmani shop.
East - From Ambedkar chowk to house of Lakhan Dewangan via House of Murari shrivastav .
South - From house of Lakhan Dewangan to house of Rekha Devi Kunjam via house of Sanjay Meshram.
West - From house of Rekha Devi Kunjam to Post office bulding via PWD rest house.

WARD NO.10 LAL BAHADUR SHASTRI WARD

- North -** From Shop of Rajkumari Tulsani to Santosh Saloon via house of Sukritdas Manikpuri.
East - From Santosh Saloon to house of Kamla bai Jain via Rajbada .
South - From house Kamla bai Jain to house Saroj poreti via house of Sushila Rawte.
West - From house of Saroj Poreti to Shop of Rajkumari Tulsani via Jalaram Sweets Kumharpara.

WARD NO. 11 LOKMANYA TILAK WARD

- North -** Form Lalit talab to Ganesh Stage via house of Rafique Khan.
East - From Ganesh Stage to house of H D singh via house of Devid patel & Firo bai.
South - From house of H D Singh to patel community building via house of ukwaro Bai Nishad.
West - From patel community building to Lalit Pond.

WARD NO. 12 SARDAR PATEL WARD

- North -** From house of Dayanand Thaware to house of Jagdish Dewangan via house of Kriparam Dewangan.
East - From house of Jagdish Dewangan to Shivnath River via Civil Court & Mukhaymantri Swavlanmban shop.
South - From Shivnath river to old Rao Pat.
West - From Old Rao Pat to house of Dayanand Thawre via house of Ramsay Patel & Sandeep Lata.

WARD NO. 13 SUBHASCHANDRA WARD

- North -** From house of Gopaldas Khandelwal to house of Khairun Nisha via house of Babulal Nishad.
- East -** From house of Khairun Nisha to Wine Shop via house of Surendra Khare & Champa Bai.
- South -** From Wine Shop to house of Dhiraj Jha via Shiv Temple & shop of Ravishankar Khandelwal.
- West -** From house of Dhiraj jha to house of Gopaldas Khandelwal via house of Nathuram Banjare.

WARD NO. 14 INDIRA GANDHI WARD

- North -** From Bajrang Temple to house of Lochan Kunjam via house of Bhuvan Amela & Hemlal Soni.
- East -** From house of Lochan Kunjam to house of Suresh Agrawal via Petrol Pump.
- South -** From house of Suresh Agrawal to shop of Gaurishankar khandelwal via Madarsa.
- West -** From shop of Gaurishankar Khandelwal to the Bajrang Temple via Gandhi Chowk.

WARD NO. 15 Dr. ZAKIR HUSAIN WARD

- North -** From house of Abdul Rajjak to Gas Godown via Mosque.
- East -** From Gas Godown to house of Lochan Kunjam.
- South -** From house of Lochan kunjam to house of Dilip Gupta via Shriram Bhawan.
- West -** From house of Dilip Gupta to house of Abdul Rajjak via house of Mukesh Kumar Shivastav.

By order & In the name of Governor of Chhattisgarh,
R. EKKK, Deputy Secretary.